



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 1979/भाद्र 16, 1901

No. 365]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 1979/BHADRA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1979

प्रसिद्धि

का० भा० 519 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 5 क की उपधारा (2) और धारा 33 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1976 को अधिष्ठाते करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का लागू होना :—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, वहाँ तक जहाँ तक उनका संबंध राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन से है, सिक्किम की विधान सभा के किसी निर्वाचन को, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :—

- (1) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में,—

(क) “प्रत्येक 2क से लेकर 2ख तक” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “प्रत्येक 2ब से लेकर 2ज तक” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) परन्तुक में, “प्रत्येक 2क या प्रत्येक 2ख” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “प्रत्येक 2ब, प्रत्येक 2छ या प्रत्येक 2ज” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

- (2) उक्त नियमों के नियम 7 में “3 से लेकर 3 ग तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “प्ररूप 3य या प्ररूप 3इ में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (3) उक्त नियमों के नियम 37 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “(2क) उपनियम (2) के खण्ड (ख) में अन्तर्लिखित किसी बात के होते हुए भी और ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त किए जाएं, अधीन रहते हुए पीठासीन आफिसर उस दशा में जब कि कोई निर्वाचक अपना अभिज्ञान पत्र किसी विधिमानी कारण से पेश करने में असमर्थ है और पीठासीन आफिसर का ऐसे निर्वाचक के अभिज्ञान के बारे में अव्यथा समाधान हो गया है, ऐसे निर्वाचक को मतपत्र का प्रदाय कर सकेगा और उसे मतदान करने देगा।”;
- (4) उक्त नियमों के नियम 90 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “90. अधिकतम निर्वाचन व्यय :—उस व्यय का योग जिसका लेखा धारा 77 के अधीन रखा जाना है और जो सिक्किम राज्य के किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत किया गया है, सो हजार पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।”;
- (5) उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 2 क से लेकर 2 इ तक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“प्ररूप 2 क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

भूटिया/लेपचा मूल के सिक्किमियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मैं सिक्किम की विधान सभा के निर्वाचन के लिए..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ :

अभ्यर्थी का नाम.....

उसका ठीक पता.....

उसका नाम..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... में क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम..... है और यह..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... में क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

तारीख:

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

मैं उपरिर्वाणित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि :—

(क) मैंने..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

* (ख) मैं इस निर्वाचन में..... पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूँ;

(ग) मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i)..... (ii)..... और ()..... हैं।

मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मैं **भूटिया/लेपचा मूल का सिक्किमी हूँ।

तारीख:

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

**लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र का क्रम सं०.....,

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में..... (तारीख) को..... (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री.....) द्वारा परितरल किया गया।

तारीख:

रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिकोपित करने वाले रिटनिंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षण कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :—

रिटनिंग ऑफिसर

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

(छिद्रित रेखा).....

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र का क्रम सं०.....

..... का, जो..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में..... (तारीख) को..... (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक (क्षी.....) द्वारा परिवर्तित किया गया।

सभी नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा..... (तारीख) को..... (बजे)..... (स्थान) में की जाएगी।

तारीख :

रिटनिंग ऑफिसर

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

प्रारूप 2 छ

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

साधारण निर्वाचन क्षेत्र से या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मैं सिक्किम की विधान सभा के निर्वाचन के लिए..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ :

अभ्यर्थी का नाम.....

उसका जाति पता.....

उसका नाम..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... में क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम..... है और यह..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... में क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

तारीख :

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

मैं, उपरिखणित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि :—

(क) मैंने..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

* (ख) मैं इस निर्वाचन में..... पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूँ;

(ग) मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i)..... (ii)..... और (iii)..... हैं।

*मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मैं..... जाति का सदस्य हूँ जो सिक्किम राज्य की एक अनुसूचित जाति है।

तारीख :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र का क्रम सं०.....

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में..... (तारीख) को..... (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री.....) द्वारा परिचालित किया गया।

तारीख :

रिटनिंग आफिसर

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :—

तारीख :

रिटनिंग आफिसर

*सागून होने वाला शब्द काट दीजिए।

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र का क्रम सं०.....

.....का, जो..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में..... (तारीख) को..... (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री.....) द्वारा परिचालित किया गया।

सभी नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा..... (तारीख) को..... (बजे)..... (स्थान) में की जाएगी।

तारीख :

रिटनिंग आफिसर

*सागून होने वाला शब्द काट दीजिए।

प्ररूप 2 ज

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

संघा निर्वाचन क्षेत्र से सचिक्रम की विधान सभा के लिए निर्वाचन

में सचिक्रम की विधान सभा के निर्वाचन के लिए संघा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ :

अभ्यर्थी का नाम.....

उसका ठाक पता.....

उसका नाम संघा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के गोंपा/भाग सं०..... में क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम..... है और यह संघा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के गोंपा/भाग सं०..... में क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

तारीख :

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

मैं उपरिर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि :—

(क) मैंने..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

* (ख) मैं इस निर्वाचन में..... पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूँ;

(ग) मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i)..... (ii)..... और (iii).....

मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मैं संघा हूँ।

तारीख :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* यदि सागून हो तो उस पैरा को काट दीजिए।

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)।

नामनिर्देशन पत्र का क्रम सं०.

यह नाम निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे)*अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री.....) द्वारा परिवर्तित किया गया।

तारीख :

रिटनिंग आफिसर

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशक पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:—

तारीख :

रिटनिंग आफिसर

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये।

डिजिटल रेखा.....

नामनिर्देशक पत्र के लिये रसीद और संबीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिये)

नामनिर्देशन पत्र का क्रम सं०.....

.....का, जो संघा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे)*अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री.....) द्वारा परिवर्तित किया गया।

सभी नामनिर्देशन पत्रों की संबीक्षा.....(तारीख) को.....(बजे).....(स्थान) में की जायेगी।

तारीख :

रिटनिंग आफिसर

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये।

(6) उक्त नियम से उपावद्ध प्ररूप 3क से लेकर 3ग तक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जायेंगे:—

“प्ररूप-3घ

नामनिर्देशन की सूचना

(नियम 7 देखिए)

(भूटिया/निपवा भून के सिक्कियों के लिये प्राप्ति निर्वाचनक्षेत्र से या संघा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन में प्रयोग के लिये)

निर्वाचन क्षेत्र से सिक्कियों की विधान सभा के लिये निर्वाचन। इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरिर्वाचन निर्वाचन की बाबत नामनिर्देशन धाज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं:—

नामनिर्देशन पत्र का क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	मूल की विशिष्टता
1	2	3	4	5	6
अभ्यर्थी का निर्वाचक	नामावली सं०	प्रस्थापक का नाम		प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली सं०	
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग सं०	उस भाग में अभ्यर्थी के नाम की क्रम सं०		निर्वाचक नामावली का भाग सं०	उस भाग में प्रस्थापक के नाम का क्रम सं०
7	8	9	10	11	12

स्थान—

तारीख—

रिटनिंग आफिसर

प्रकाश 3-8

नामनिर्देशन की सूचना

(नियम 7 देखिए)

(साधारण निर्वाचन क्षेत्र या अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन में प्रयोग के लिये)

निर्वाचन क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिये निर्वाचन इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरि वर्णित निर्वाचन की बाबत नामनिर्देशन आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं:—

नामनिर्देशन पत्र का क्रम नं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का आयु	पता	जाति का विवरण
1	2	3	4	5	6
अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली सं०			प्रस्थापक का नाम		प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली सं०
विधान सभा—निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग सं०	उक्त भाग में अभ्यर्थी के नाम का क्रम सं०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली का भाग सं०		उक्त भाग में प्रस्थापक के नाम का क्रम सं०
7	8	9	10	11	12

स्थान

तारीख

रिटिंग आफिसर”।

[सं० फा० 7(34)/79-विभा०-II]

ई० बेंकटेश्वरन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 1979

S.O. 519(E).—In exercise of the powers conferred by section 169, read with sub-section (2) of section 5A and sub-section (1) of section 33 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1976, the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979.
- (2) They shall come into force at once.

2. Application of the Conduct of Elections Rules, 1961, for elections to the Legislative Assembly of Sikkim.—The Conduct Elections Rules, 1961, in so far as they relate to an election to the Legislative Assembly of a State, shall apply to any election to the Legislative Assembly of Sikkim, subject to the following modifications, namely:—

- (i) in rule 4 of the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules)—
 - (a) for the words, figures and letters “Forms 2A to 2E”, the words, figures and letter “Forms 2F and 2H” shall be substituted
 - (b) in the proviso, for the words, figures and letters “Form 2A or Form 2B”, the words, figures and letters “Form 2F, Form 2G or Form 2H” shall be substituted;
- (ii) in rule 7 of the said rules, for the words, figures and letters “in such one of the Forms 3A to 3C”, the words, figures and letters “in Form 3D or Form 3E” shall be substituted;
- (iii) in rule 37 of the said rules after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“2(A) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (2) and subject to such general or special directions if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, the presiding officer may, if an elector is not able to produce his identity card for any valid reasons and the presiding officer is otherwise satisfied about the identity of such elector, supply a ballot paper to such elector and allow him to vote.”

- (iv) for rule 90 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

“90. Maximum election expenses—

The total of the expenditure of which account is to be kept under section 77 and which is incurred or authorised in connection with an election in any one assembly constituency of the State of Sikkim shall not exceed two.

(v) for Forms 2A to 2E appended to the said rules, the following forms shall be substituted, namely :—

"FORM 2F

(See rule 4)

NOMINATION PAPER

ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SIKKIM FROM A CONSTITUENCY RESERVED FOR SIKKIM OR BHUTIA-LEPCHA ORIGIN.

I nominate as a candidate for election to the Legislative Assembly of Sikkim from the assembly constituency

Candidate's name.....

His postal address.....

His name is entered at S. No..... in Part No..... of the electoral roll for the Assembly constituency.

My name is and it is entered at S. No. in Part No..... of the electoral roll for the assembly constituency.

Date : (Signature of Proposer)

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare :—

(a) that I have completed years of age;

*(b) that I am set up at this election by the party;

(c) that the symbols I have chosen are, in order of preference,

(i)

(ii) and (iii)

I further declare that I am a Sikkimese of **Bhutia/Lepcha origin.

Date..... (Signature of Candidate)

*Score out this paragraph, if not applicable.

**Score out the word not applicable.

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of nomination paper.....

This nomination was delivered to me at my office at (hour) on (date) by the *candidate/proposer (Shri.....).

Date.....

Returning Officer

DECISION OF RETURNING OFFICER ACCEPTING OR REJECTING THE NOMINATION PAPER

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951 and decide as follows :

Returning Officer

*Score out the word not applicable.

(Perforation)

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE OF SCRUTINY

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nomination paper.....

The nomination paper of a candidate for election from the assembly constituency was delivered to me at my office at (hour) on (date) by the *candidate/proposer Shri..... All nomination papers will be taken up for scrutiny at (hour) on (date) at (place).

Date..... Returning Officer

*Score out the word not applicable.

FORM 2G

(See rule 4)

NOMINATION PAPER

ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SIKKIM FROM A GENERAL CONSTITUENCY OR A CONSTITUENCY RESERVED FOR SCHEDULED CASTES

I nominate as a candidate for election to the Legislative Assembly of Sikkim from the..... assembly constituency.

Candidate's name.....

His postal address.....

His name is entered at S. No..... in Part No..... of the electoral roll for the..... assembly constituency.

My name is..... and it is entered at S. No..... in Part No..... of the electoral roll for the..... assembly constituency.

Date.....

(Signature of Proposer)

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare :—

(a) that I have completed..... years of age;

*(b) that I am set up at this election by the..... party;

(c) that the symbols I have chosen are, in order of preference,

(i)

(ii) and

(iii)

*I further declare that I am a member of the..... caste which is a scheduled caste of the State of Sikkim.

Date.....

(Signature of candidate)

*Score out this paragraph, if not applicable.

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of nomination paper.....

This nomination was delivered to me at my office at..... (hour) on..... (date) by the *candidate/proposer

(Shri.....).

Date.....

Returning Officer

DECISION OF RETURNING OFFICER ACCEPTING OR REJECTING THE NOMINATION PAPER

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951, and decide as follows :

Date.....

Returning Officer

*Score out the word not applicable.

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE OF SCRUTINY

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nomination paper.....

The nomination paper of..... a candidate for election from the..... assembly constituency was delivered to me at my office at..... (hour) on..... (date) by the *candidate/proposer (Shri.....)

All nomination papers will be taken up for scrutiny at..... (hour) on..... (date) at..... (place).

Date.....

Returning Officer

*Score out the word not applicable.

FORM 2H

(See rule 4)

NOMINATION PAPER

ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SIKKIM FROM SANGHA CONSTITUENCY

I nominate as a candidate for election to the Legislative Assembly of Sikkim from Sangha Constituency.

Candidate's name.....

His postal address.....

His name is entered at S.No. in Gonpa/Part No. of the electoral roll for the Sangha Constituency.
My name is .. and it is entered at S.No. in Gonpa/Part No. of the electoral roll for the Sangha Constituency.

Date

(Signature of Proposer)

I, the abovementioned candidate, assent to the nomination and hereby declare—

- (a) that I have completed years of age ;
(b) that I am set up at this election by the party;
(c) that the symbols I have chosen are, in order of preference,
(i)
(ii), and
(iii)

I further declare that I am a Sangha.

Date

Signature of candidate

*Score out this paragraph if not applicable.

(To be filled by the Returning Officer)

Sl. No. of nomination paper

This nomination was delivered to me at my office at (hour) on (date) by the *candidate/proposer (Shri.).

Date

Returning Officer

DECISION OF RETURNING OFFICER ACCEPTING OR REJECTING THE NOMINATION PAPER

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951, and decide as follows :—

Date

Returning Officer

*Score out the word not applicable.

Perforation

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE OF SCRUTINY

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

S. No. of nomination paper

The nomination paper of a candidate for election from the Sangha constituency was delivered to me at my office at (hour) on (date) by the *candidate/proposer (Shri.).

All nomination papers will be taken up for scrutiny at (hour) on (date) at (place).

Date

Returning Officer

*Score out the word not applicable" ;

(vi) for Forms 3A to 3C appended to the said Rules, the following Forms shall be substituted :—

FORM 3D

NOTICE OF NOMINATION

(See rule 7)

(To be used at an election from a constituency reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin or from the Sangha Constituency).
Election to the Legislative Assembly of Sikkim from the Constituency.
Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received upto 3 P.M. today :—

S.No. of nomination paper	Name of Candidate	Name of father/mother/husband	Age of candidate	Address	Particulars of origin
1	2	3	4	5	6

Electoral roll no. of candidate			Electoral roll No. of proposer		
Name of assembly constituency	Part No. of electoral roll	Sl. No. of candidate's name in that part	Proposer's name	Part No. of electoral roll	Sl. No. of proposer's name in that part
7	8	9	10	11	12

Place :

Date :

Returning Officer

FORM 3E

NOTICE OF NOMINATION

(See rule 7)

(To be used at an election from a general constituency or a constituency reserved for the Scheduled Castes)

Election to the Legislative Assembly of Sikkim from the constituency.

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received upto 3 P.M. today:—

Sl. No. of nomination paper	Name of Candidate	Name of father/mother/husband	Age of candidate	Address	Particulars of caste
1	2	3	4	5	6

Electoral roll No. of candidate			Electoral roll No. of proposer		
Name of assembly constituency	Part No. of electoral roll	S. No. of candidate's name in that part	Proposer's name	Part No. of electoral roll	Sl. No. of proposer's name in that part
7	8	9	10	11	12

Place :

Date :

Returning Officer."

[No. F. 7(34)/79 Leg. II]

E. VENKATESWARAN, Jt. Secy.